



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 314]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 25, 1982/कार्तिक 3, 1904

No. 314]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 25, 1982/KARTIKA 3, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 1982

अधिसूचना

सां० कां० नि० 629(अ):—राज्यों और संघ क्षेत्र प्रशासनों द्वारा जारी किये जाने वाले राष्ट्रीय परमिटों की संख्या में वृद्धि करने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन था। अब यह निर्णय किया गया है कि 8300 और परमिट दिये जायें अर्थात् राष्ट्रीय परमिटों की कुल संख्या 16,600 को जो पहले निर्दिष्ट की गई थी, बढ़ा कर 24,900 कर दिया जाय और भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० सां० कां० नि० 570 (क) दिनांक 4 अक्टूबर, 1980 के द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ प्रशासन से संबंधित पहले निर्दिष्ट राष्ट्रीय परमिटों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाए।

मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 63 की उप धारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० 570 (क) दिनांक 4 अक्टूबर, 1980 में संशोधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 4 में मोटर वाहनों की विनिर्दिष्ट संख्या की अतिरिक्त संख्या के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके लिए उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में सदनरूप प्रविष्टि में उल्लिखित उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा

दूर तक अन्तराज्यीय सड़क परिवहन को प्रोत्साहित देने के लिए अपने राज्य में राष्ट्रीय परमिट मंजूर कर सकूँता है।

सारणी

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मोटर वाहनों की संख्या जिसके लिये राष्ट्रीय परमिट जारी किये जायें		
		मौजूदा	अतिरिक्त	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल	900 प्रत्येक	450 प्रत्येक	1350 प्रत्येक
2.	हरियाणा, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा पंजाब, राजस्थान, तमिल नाडू और दिल्ली	800 प्रत्येक	400 प्रत्येक	1200 प्रत्येक
3.	हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर	600 प्रत्येक	300 प्रत्येक	900 प्रत्येक
4.	गोवा, दमन और दीव	500	250	750
5.	त्रिपुरा	400	200	600

1	2	3	4	5
6	मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, मिजोरम और पॉण्डिचेरी	100	50	150
		प्रत्येक	प्रत्येक	प्रत्येक

[फ. नं. ट. 2/टी(11)/82]
ग. ज. मिश्रा, ज. सेक.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(Transport Wing)

New Delhi, the 25th October, 1982

NOTIFICATION

G.S.R. 629(E) :—Central Government had under its consideration, the question of increase in the number of National Permits for issue by the States and Union Territory Administrations. It has since been decided that the total number of 16,600 National Permits specified earlier may be raised to 24,900 thus providing for additional number of 8300 and that the number of National Permits specified earlier in respect of each State/Union Territory vide notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. G.S.R. 570(E) dated the 4th October, 1980 be increased by fifty per cent.

In exercise of the powers conferred by sub-section (11) of Section 63 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), and in modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. G.S.R. 570(E) dated the 4th October, 1980 the Central Government hereby specifies the number of motor vehicles specified in column 4 of the Table below as additional number for which the appropriate authority of a State mentioned in the corresponding entry in Column 2 of the said Table may, for the purpose of encouraging

long distance inter-State road transport grant national permits in that State.

TABLE

Sl. No.	Name of the State	Number of motor vehicles for which national permits may be issued		
		Existing	Additional	Total
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh and West Bengal.	900 each	450 each	1350 each
2.	Haryana, Karnataka, Kerala, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu & Delhi.	800 each	400 each	1200 each
3.	Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir	600 each	300 each	900 each
4.	Goa, Daman & Diu	500	250	750
5.	Tripura	400	200	600
6.	Meghalaya, Manipur, Nagaland, Sikkim, Arunachal Pradesh, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Mizoram and Pondicherry.	100 each	50 each	150 each

[F. No. TW/TIT(11)/82]
G.J. MISRA, Jt. Secy.